

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 1970/अग्राहायण 18, 1892

No. 441] NEW DELHI WEDNESDAY, DECEMBER 9, 1970/AGRAHAYANA 18, 1892

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

ESTATE DUTY

New Delhi, the 9th December, 1970

S.O. 3934—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), the Central Government hereby appoints the persons, whose names are given in the appendix, as Valuers for the purpose of the said Act for a period of five years from the date of this Notification.

2. The scale of charges for the remuneration of Valuers appointed by the Central Government for valuing any property shall be as fixed below and no such Valuer shall charge a fee at a scale higher than the scale so fixed;

Provided that where two or more properties are required to be valued:—

- (i) by a Committee of Arbitration or by a third Valuer in pursuance of a single order, or
- (ii) by a Valuer, in pursuance of a single reference made by a Controller of Estate Duty or at the instance of an accountable person,

all such properties shall be deemed to constitute a single unit of property for the purposes of fixing the fee payable to the Committee or the Valuer, as the case may be;

Provided further that where the same property or properties required to be valued by the same Committee of Arbitration or, as the case may be, by the same Valuer, is or are common to more than one case and the valuation relates to the same date, the Committee of Arbitration or the Valuer shall be entitled to charge fees at the scale fixed below only in one case and in the remaining case or cases the said Committee of Arbitration or Valuer shall be entitled to charge fees not exceeding rupees one hundred per case.

Scale of charges

On the first Rs. 50,000/- of the property so valued . . .	$\frac{1}{4}\%$ of the value
On the next Rs. 1,00,000 of the property so valued . . .	$\frac{1}{4}\%$ of the value.
On the the balance of the property so valued . . .	$\frac{1}{8}\%$ of the value.

3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the remuneration payable to a Valuer shall in no case be less than rupees fifty.

APPENDIX

Serial No.	Name	Address
------------	------	---------

1

2

3

I. ENGINEERS/SURVEYORS/ARCHITECTS

Bombay

- 1 Shri B. V. Shirodkar . . . Sri Niketan, Flat No. 10, 3rd Floor, Opp. Kirti College, Kashinath Dhuru Road, Dadar, Bombay-28.
- 2 Shri K. Viswanathan . . . 2nd Floor, Botawala Building, 11/13, Horniman Circle, Fort, Bombay-1.

Rajasthan

- 3 Shri R. C. Pancharya . . . Executive Engineer, Planning Division, Jaipur
- 4 Shri H. C. Bhargava . . . T.A.I. to Chief Engineer-cum-Deputy Secretary to Government, P.W.D., B & R, Rajasthan, Jaipur.
- 5 Shri M. C. Sarma . . . Executive Engineer, P.W.D., B & R, C. 46, Resident-Road, Jodhpur.
- 6 Shri L. N. Maheswari, . . . Executive Engineer, P.W.D., B & R Division, Chittorgarh, Rajasthan.

Madras

- 7 Shri K. Padm andbhan . . . Consulting Engineer, Siniketan, 103 West Sendan Pettai St., Madurai-1.
- 8 Shri A. S. Sivaramakrishna . . . Consulting Engineer, 60/4, Sir Thyagaraja Road T. Nagar, Madras-17.
- 9 Shri C. N. Srinivasan . . . Karpapambal Nagar, Luz, Madras-4.

Gujarat

- 10 Shri P. K. Vora . . . Retd. Superintending Engineer, Nagar Chakla, Bhuj, Kutch.

Mysore

- 11 Shri S. Ramiengar 2 . . . No. 74, Diagonal Road, III Block, Jayanagar, Bangalore-11.
- 12 Shri M. N. Singlachar . . . 18 Millers Road, Bangalore-6.
- 13 Shri H. M. Kamat . . . P.O. Box No. 44, Panaji, Goa.

Delhi

- 14 Shri D. P. Maitra, . . . E. 79, N.D.S.E., Part-I, N. Delhi-3.
- 15 Shri B. K. Guha . . . Chief Engineer (Retd.), 83-G, Sujan Singh Park New Delhi.
- 16 Shri D. R. Gambhir . . . G. 23, Green Park, N. Delhi-16.
- 17 Shri S. Khanna . . . 197, Jorbagh Road, N. Delhi.
- 18 Shri T. B. Gandhi . . . III-H/5, Lajpat Nagar, N. Delhi-14.

Andhra Pradesh

- 19 Shri N. Subba Rao . . . Chartered Engineer, Lakshmiapuram, Guntur-2.

Poona

- 20 Shri R. S. Bodhani . . . Aschitect, Manu-Smrti, Erandawana, 33/6, Prabhat Road 5, Poona-4.

1

2

3

Uttar Pradesh

- 21 Shri V. S. Desikan . . . Retd. Chief Engineer, Nagar Mahapalika, Water Works Compound, Kanpur-2.

II. ACCOUNTANTS

West Bengal :

- 1 Shri P. N. Ghosh . . . Chartered Accountant, Narayan 1st Floor, Kumarpur, P.O. Asansol, Distt. Burdwan, W. Bengal.

Uttar Pradesh

- 2 Shri B. C. Jain . . . Chartered Accountant, 17/3, The Mall, Kanpur

III. SPECIALIST IN AGRICULTURE AND FARM VALUATION

Madras]

- 1 Shri S. Subba Naidu . . . Retd. Sub-Registrar, No.8, Pandya Vellala Street, Madurai.
 2 Shri M. Balasubramaniam . . . Retd. Dist. Registrar, Chidambaram, South Arcot Dist., Madras.
 3 Shri T. Sreenivasan . . . "Ayodhya", 52 L.I.C. Colony, Meenakshipuram, Madurai-2.
 4 Shri T. K. Thangavelu . . . Joint Director of Agriculture (Retd.) 31 Gengu Reddy Road, Madras-8.
 5 Shri K. Klayas . . . Retd. Sub-Registrar, Opposite to Aravind Pharmacy Meenakshipuram, Nagercoil, Kanyakumari Dist., Madras.
 6 Shri S. Poovavalingham . . . Retd. Settlement Officer, Plot No. 184, Sathamangalam Colony, Madurai-13.
 7 Shri S. Krishnaraj . . . 16 First Street, Nandanam, Madras-35.
 8 Shri V. Dorairajan . . . Retd. Sub-Registrar, 43 Kutcheri, Road, Mylapore, Madras-4.
 9 Shri V. Janakiram . . . 18 Habeeb Sahib Street, Fort, Salem-1, Madras.

Andhra Pradesh :

- 10 Shri M. Ali Shareff Khan . . . Retd. Deputy Collector, Lachiraju Street, Kakinada-1 E. G. Dist., A.P.
 11 Shri G. V. Ratnam . . . Controlling & Co-ordinating Officer, A.P. Agricultural University, College of Agriculture, Bapatla, Guntur Dist.
 12 Shri V. Suryanarayana . . . Retd. Tahsildar, Sreeramangar, Kakinada-3, E. Godavari Dist.
 13 Shri P. V. Reddi Naidu . . . Retd. Tahsildar, Narasapur, W.G. Dist., A.P.
 14 Shri B. Lakshmi Narayana . . . Retd. Deputy Collector, Kankarigunta, Guntur-4, A.P.
 15 Shri M. A. Hamid Khan . . . Retd. Deputy Collector, Chittoor, A.P.
 16 Shri J. Rajarathnam . . . The Andhra Sugar Mills Ltd. Tanuku, W. Godavari, A.P.
 17 Shri A. Subramanyan . . . Retd. Deputy Director of Agriculture, House No. 29-28-58, Dasarivari St., Suryanopet, Vijayawada-2, Krishna Dist., A.P.
 18 Shri M. Rami Reddy . . . Retd. Deputy Director of Agriculture, Vontimitta P.O. Cuddapah Dist., A.P.
 19 Shri K. S. Prakasa Rao . . . Retd. Tahsildar, Raghudevapuram, Rajahmundry Taluk, East Godavari Dist., A.P.
 20 Shri V. Balanna . . . Retd. Deputy Collector H. No. 3-4-512/9, Barkatpura, Hyderabad, Deccan, A.P.

Poona :

- 21 Shri Jayajirao Baburao Rao . . . 89 Ashirwad, Shri Shivaaji Co-operative Housing Society, Poona-16.
 22 Shri D. H. Joshi . . . 2/16 Agarkar Nagar, Near Alankar Theatre, Poona-1.
 23 Shri V. V. Phatak . . . 1591 Sadashiv Peth, Tilak Road, Poona-30.
 24 Shri R. D. Shingte . . . Retd. Deputy Collector, Ashirwad, Takala Colony Rajarampuri, Kolhapur, M.S.

1

2

3

25	Shri K. K. Jadhav	Retd. Deputy Collector, 12, Queens Garden, Poona-1
26	„ T. T. Mulay	Deputy Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Ahmed-Nagar, M.S.
27	„ R. V. Deshpande	39/26, Kachare Wadi, Karve Road, Poona-4.
28	„ I. R. Borole	Revenue Officer, Zilla Patishad, Ahmednagar, M.S.
29	„ D. S. Bhagwan	Retd. Deputy Collector, 106, Sidheswar Peth, Sholapur, M. S.
30	„ R. R. Mankad	Mangnath Road, Junagadh.
31	„ S. V. Naikwadi	431, Somwar Peth, Station Road, Poona-11
32	„ T. C. Sanvant	Retd., Deputy Collector, Swami Bldg., Revenue Colony, Sanghi, M.S.
33	„ G. S. Kanetkar	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer, Saphalaya Plot No. 42, Ruikar Colony, Kolhapur-3, M.S.
34	„ P. M. Deshpande	Retd. Tahsildar, 153, Navi Peth, Near Jain Mandir, Jalagaon, M. S.
35	„ S. S. Malpathak	Girija, 16, Ashoknagar, Ganeshkhind, Poona-
<i>Mysore :</i>		
36	Shri M. Bettayya	Retd. Headquarters Assistant to District Registrar, No. 826, III Block, Rajajinagar, Bangalore-10.
37	„ F. S. Raju	917, Vth Block, Rajajinagar, Bangalore-10.
38	„ D. V. Hiremath	Veerashree, Adasha Nagar, Hubli-22, Mysore.
39	„ S. Nanjunda Reddy	No. 187, 38th Cross, V. Block, Jayanagar, Bangalore-41.
40	„ Azeez Mohideen Peeran	Retd. Tahsildar C/o Shri Gulam Ahmed, Executive Engineer, No. III, 3rd Block, Water Supply Quarters, Jayamahal Extension, Bangalore-6.
41	„ V. B. Kulkarni	Assistant Commissioner (Retd.), 23, West Anjareya Temple Road, Basavangudi, Bangalore-4.
42	„ Mohamed Abid Hussain	Retd. Assistant Commissioner, Maroof Manzil, Brahm-pur, Gulbarga, Mysore.
<i>Gujarat :</i>		
43	Shri L. R. Datwani	Sindhu Bhavan, Prankunj Society, Kankaria, Ahmeda-bad-22.
44	„ G. M. Chudasama	“Shivam”, Bungalow, Adarsh Society, Race Course, Rajkot.
45	„ R. M. Sheth	Retd. Deputy Collector, 3B, Suryodaya, Colony, Near Sardar Patel Colony, Ahmedabad-13.
46	„ M. K. Shah	1, Junction Plot, Rajkot.
47	„ K. N. Gohil	Retd. Sub Registrar, C/o 985, Krishnanagar, Bhavanagar, Saurashtra.
48	„ Mohanlal Odhavji Pandya	Kasturba Street, Keshod, Jungrbadh Dist., Gujarat.
49	„ Chimanbhai Chathurbhai Patel	Retd. Deputy Collector, Kakarkhad, Sutaria Pole, Nadiad, Dist. Kaira, Gujarat.
50	„ P. N. Jani	Retd. Deputy Collector, Ashok Sadan, Irwin Circle, Jamnagar, Gujarat.
51	„ N. N. Dholakia	Retd. Civil Judge, Lina, Opp: Panjab National Bank, Palegag, Baroda-2.
52	„ Shankarlal D. Trivedi	Retd. Deputy Collector, 6, Magdhut Society, Baroda.
53	„ Purushottam Chhotabhai Patel	Retd. Inspector of Registration, Ami, L. Mancklal Colony, Kareli Baugh, Baroda.
54	„ Gordhanbhai Chhotabhai Amin	14, Govt. Servants Society, Navragpura, Ahmedabad-9.
55	„ Narendrakumar M. Joshi	Gangadhar Krupa Bhavan, Bhaktinagar Society, Rajkot-2.
56	„ Allubha Dahyabhai Patel	Premjwad Station Road, Navsari, Dist. 11, Gujarat.
57	„ C. C. Gandhi	Retd. Deputy Collector, Opp. San ashala, Mardabari, Nadiad, Dist. Kaira.
58	„ Bhaskerray C. Hathi	Opp. Vejnath Temple, Tamnagar.
59	„ N. H. Trivedi	Retd. Deputy Collector, Nappur, Kharadisher, Chhota-lal Bhuvan, Surat No. 1, Surat.
60	„ Premchand Vaghilbhai Amin	Kaj Mahal Road, Near Kirti Stambh, Baroda-1.
61	„ G. V. Naik	Desai Palia, Nava Dehra, Broach, Gujarat.
62	„ S. D. Desai	5/15, Shanker Nivas, Juno Vandri Moholla, Navsari, W. Rly., Distt. Bulsar.

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Shri K. C. Patel		Deputy Collector (Retd.), 38 Pratapganj, Baroda-2, Gujarat.				
64	„ G. V. Bhat		C/o Virchand Govindji Shah, Maliwada Road, Junagadh, Gujarat.				
65	„ I. M. Patel		Siamwala Building, Sulemani Pole, Mogulwada, Baroda-1.				
66	„ D. K. Master		Subhas Park Society, Block No. 23, Harni Road, Baroda-6.				
Madhya Pradesh :							
67	Shri S. D. Kale		Retd. Addl. District Judge, 6A, Prabha Niwas, P. O. Rajendranagar, Tah. & Dist. Indore.				
68	„ R. C. Vyas		Deputy Collector (Retd.), 29, Bairathi Colony, no 1, Indore-2, M. P.				
69	„ Ramashankar Chaturvedi		Retd. Tahsildar, 277, M. G. Road, Indore-2, M. P.				
70	„ R. B. L. Gumashta		Retd. Under Secretary, 1128, Napier Town, Jabalpur, M. P.				
71	„ N. P. Konher		19, Panchsheel Nagar, Raipur, M. P.				
Kerala :							
72	Shri N. Venkiteswara Iyer		Retd. Deputy Collector, Puthiya Matom, Monkompu, Via Alleppey, Kerala.				
73	„ C. Sivadasan Nair		Inspector of Registration (Retd.), 9/217, College Road, Palghat-1, Kerala.				
74	„ P. T. George		Retd. Sub Registrar, Padavupurackal House, Edathua, P. O. Alleppey, Dist., Kerala.				
75	„ M. K. Ramakrishnan Nair		Retd. Asstt. Director of Survey and Land Records Mathilcodical House, Azhiyadathu Ch. ra P. O., Tiruvella, Alleppey Dist.				
76	„ T. S. Ramakrishna Iyer		Retd. Tahsildar, 4/783, Venkatesapuram, Puthur, Palghat, Kerala.				
77	„ P. A. Subramania Iyer		Retd. Tahsildar, Mannathu Parakalam, Pananzattur, Palghat.				
78	„ K. R. Warier		Kalavihar, Kaudiar, Trivandrum-3.				
79	„ T. M. Abdullah		Retd. Sub-Judge, Rahmath Bagh, Cannanore-6, Kerala.				
80	„ C. K. Balakrishnan Nair		Retd. Dist. Revenue Officer, 103, Krishna, Chandranagar, Palghat-7, Kerala.				
81	„ A. Achuthan Nair		Retd. Tahsildar, Kodakkat House, P. O. Perintalmanna, Malappuram Dist., Kerala.				
West Bengal :							
82	Shri Lokesh Ganguli		91, Monirampore Colony, P. O. Barrackpore, 24-Parganas, W. B.				
83	„ Upendra Kumar Chakrabarti		Quarter No. E. 3/2, Cokeoren Colony, P. O. Durgapore-2, Dist. Burdwan.				
84	„ Manindra Nath Nag		Advocate, Rishi Bankim Chatterjee Road, P. O. Barrackpore, Dist. 24-Parganas.				
85	„ Shyamapada Sen		116 B, B. Chatterjee Road, Kasba, Calcutta-42.				
86	„ Prakash Chandra Banarjee		Village Chalktajpur, P. O. Ilahapur, Dist. Hughly, W. B.				
87	„ Babatosh Pal		Advocate, 44, Russa Road, East 1st Lane, Calcutta-13, W. B.				
88	„ Santosh Kumar Basu		Retd. Sub Registrar, 98/D, Banerji Para Road, Charicharapara, P. O. Nabadwip, Dist. Nadia, W. B.				
89	„ J. C. Das Gupta		Retd. Agl. Officer, C/o Miss Kamal Sen Gupta, C T. Buildings, Block A., Room No. 6, P. O. Sodepur Dist. 24-Parganas, W. B.				
90	„ Jogendranath Dutta		19, Thakurgali, P. O. Chinsurah, Dist. Hooghly, W. B.				
Orissa :							
91	Shri Ban mali Das		Retd. Tahsildar, P. O. Kullada, Via Bhanjanagar, Dist. Ganjam, Orissa.				

1	2	3
92	Shri. N. Chatterbhan Patnaik	Tadepallivari St., Chatrapur, Dist. Ganjam Orissa.
93	„ A. K. Ghoshal	Retd. Deputy Collector, Balabhada Nivas, Manikkada Lane, P. O. Puri.
94	„ R. C. Kar	Retd. Dist. & Sessions Judge, S. O. Quarters No. 4, Killa Forte, Cuttack-1.
95	„ S. N. M. Sra	D-6, Kalpana Colony, Bhubaneswar.
96	„ M. V. G. Shastri	Retd. Compensation Officer, Hawamaidan, P.O./Dist. Sambalpur, Orissa.
97	„ Nirasinga Churan Bodi	Village-Uchadihi, P.O. Rameswar, Dist. Cuttack, Orissa
98	„ D. A. R. Panda	Plot No. 116, Satyanagar, Bhubaneswar-7.
99	„ Lt. P. C. Pattnayak,	Qt. No. 3 1/2, Type-VR, Unit II, P.O. Bhubaneswar, Dist. Puri, Orissa.
100	„ N. M. Das	OAS Retd. New Colony, Rahasapatna, Cuttack-1, Orissa.

Delhi.

101	Shri Ram Nirain Singh	Retd. Deputy Collector, R/O 41, Bungalow Road, Kamla Nagar, Delhi-7.
102	„ Lachh Niran Razada	R/O N. Pillai Hassanpur, P.O. Bal Rangran Tehsil, Dist. Karnal.
103	„ Gulal Chand Jain	Retd. Dist. & Session Judge, Satyamkalan, Nahan, H.P.
104	„ Surendranath	Dynamics (Retd.), 48 Marina Annexe, Simla-1, H.P.

Punjab :

105	Shri Writan Singh	Deputy Collector (Retd.), 48-R, Model Town, Ludhiana,
106	„ Hira Singh	S/o Bagra Singh V. & P.O. Voin Poin, Teh. Taran Taran, Dist. Amritsar.
107	„ Sant Ram Garg	Retd. Dist. & Session Judge, Advocate, Bhatinda.
108	„ Ujagar Singh Bajwa	P.A.S. Retd., Village & P. O. [Kot Santokh Rai, Near] Dhariwal, Dist. Gurdaspur.

Uttar Pradesh :

109	Shri S. G. Agnihotri	Retd. Tahsildar, 906/14, Seva Ram Oil Mills, Civil, Lines, Jhansi, U. P.
110	„ Prem Das Agarwal	Raja Darwaja House, Raja Darwaja, Varanasi-1, U.P.

Bihar :

111	Shri G. S. Sinha	105, Pataliputra Colony, Patna-13, Bihar.
-----	------------------	---

IV. SPECIALIST IN COFFEE PLANTATIONS**Mysore :**

1	Shri M. J. A. Saldana	Goove-Anegundi Estate, Javoli P. & T.O., Chickmangalore.
---	-----------------------	--

Madras :

2	Shri M. Thangavehu	Havukal Estate Co., Kotagiri P.O., Nilgiris, Madras.
---	--------------------	--

V. SPECIALIST IN TEA PLANTATIONS**Madras :**

1	Shri M. Thangavehu	Havukal Estate Co., Kotagiri P.O., Nilgiris, Madras.
---	--------------------	--

VI. ACTUARY**West Bengal :**

1	Shri H. K. Sen	Actuary, Block G., Plot 374, New Alipore, Calcutta-53.
---	----------------	--

VII. VALUERS FOR STANDING FORESTS**Mysore :**

1	Shri M. M. Sreenivasan	Kalpataru, 9th Cross Road Malleswaram, Bangalore-3.
---	------------------------	---

1

2

3

VIII. CARDAMOM PLANTATIONS.

Delhi :

1 Shri H. Ajmal Khan, M. P. . . . 6 Meena Bagh, N. Delhi.

Madras :

2 Shri W.P.A. R. Nagarajan, . . . Planter, Pattiveeranpatti, Madurai Dist., Madras State.

Kerala :

3 Shri P. K. Ah., . . . 2 Planter, Red Cross Road, Calicut-1, Kerala.

[No. 300/2952/70ED]

BALBIR SINGH,
Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सम्पदा-शुल्क

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1970

एस० प्रो० 3934-म० 300/2952/70-ई०डी०.—सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को, जिनके नाम परिशिष्ट में दिए गए हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोग के लिए इन अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए मूल्यांकनों के रूप में नियुक्त करती है।

2. किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांककों के पारिश्रमिक के लिए प्रसार-मापमान निम्नलिखित नियत किए गए के अनुसार होगा, और ऐसा कोई भी मूल्यांकक इस प्रकार नियत मापमान से उच्चतर मापमान वाली फीस प्रभारित नहीं करेगा ;

परन्तु जहां दो या अधिक सम्पत्तियों का मूल्यांकन :

(1) एकल आवेदन के अनुसरण में माध्यस्थ-समिति द्वारा या तृतीय मूल्यांकक द्वारा
या

(2) सम्पदा शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए एकल निर्देश के अनुसरण में या उत्तर-दायी व्यक्ति के कहने पर, मूल्यांकक द्वारा किया जाना अपेक्षित है जहां, यथास्थिति, समिति या मूल्यांकक को पंदेय फीस नियत करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित एक ही सम्पत्ति या सम्पत्तियाँ एक से अधिक मामलों में सामान्य है और मूल्यांकन एक ही तारीख से सम्बन्धित है, तो माध्यस्थम् समिति या मूल्यांकक निम्नलिखित नियत मापमान पर फीस केवल एक मामले में ही प्रभारित करने का हकदार होगा और अवशिष्ट मामले या मामलों में उक्त माध्यस्थम् समिति या मूल्यांकक प्रति मामले एक से अधिक फीस प्रभारित करने का हकदार नहीं होगा।

प्रभार-मापमान

इस प्रकार मूल्यांकित सम्पत्ति के प्रथम 50,000 रु० पर	मूल्य का 1/2 प्रतिशत
इस प्रकार मूल्यांकित सम्पत्ति के अगले 1,00,000 रु० पर	मूल्य का 1/4 प्रतिशत
इस प्रकार मूल्यांकित सम्पत्ति के अतिशेष पर	मूल्य का 1/8 प्रतिशत

3. पैरा 2 में किसी बात के होते हुए भी, मूल्यांकक को संदेय पारिश्रमिक किसी भी हिसाब में पचास रुपये से कम नहीं होगा ।

परिशिष्ट

क्रम सं०	नाम	पता
1	2	3

1. इंजीनियर/सर्वेक्षक/वास्तुक

बम्बई :

- 1 श्री बी० बी० शिरीडकर श्री निकेतन, फ्लैट नं० 10, तीसरी मंजिल, कीर्ति कालेज के सामने, काशीनाथ धुरु रोड, दादर, बम्बई-28 ।
- 2 श्री कै० विश्वनाथन दूसरी मंजिल, बौटावाला बिल्डिंग, 11/13 हानिमान सकिल, फोर्ट, बम्बई-1 ।

राजस्थान :

- 3 श्री आर० सी० पंचायत कार्यकारी इंजीनियर, योजना खण्ड, जयपुर ।
- 4 श्री एच० सी० भार्गव मुख्य इंजीनियर के० ए० सी० आर० राजस्थान सरकार के उप-सचिव, पी० डब्लू० डी० बी० एण्ड आर०, राजस्थान, जयपुर ।
- 5 श्री एम० सी० शर्मा कार्यकारी इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० बी० एण्ड आर०, सी-46, रेसीडेंसी रोड, जोधपुर ।
- 6 श्री एल० एन० महेस्वरी कार्यकारी इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० बी० एण्ड आर० डिवीजन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान ।

मद्रास :

- 7 श्री कै० पद्मनाभन सहायकार इंजीनियर, श्री निकेतन, 403, पश्चिम सण्डारी, फ्लैट नं० 1, मद्रास-1 ।
- 8 श्री ए० एम० शिवरामकृष्ण सहायकार इंजीनियर, 40/4, जवाहर नगर रोड, टी० नगर, मद्रास-1 ।
- 9 श्री सी० एन० श्रीमन्वासन कपगां नगर, मद्रास-4 ।

1	2	3
गुजरात :		
10	श्री पी० के० बोरस	सेवानिवृत्त अधीक्षक इंजीनियर, नगर बावला, भुज, कच्छ ।
मैसूर :		
11	श्री एस० रामस्वामीयंगर	नं० 74, डायगनल रोड, ब्लॉक 3, जयनगर, बंगलूर-11 ।
12	श्री एम० एन० सिंगलाचार	18 मिलर्स रोड, बंगलूर-6 ।
13	श्री एच० एम० कामत	पो० बाक्स नं० 44, पणजी, गोआ ।
दिल्ली :		
14	श्री डी० पी० मैत्रा	ई-79, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली-3 ।
15	श्री बी० के० गुहा	मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त), 83-जी० सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली ।
16	श्री डा० आर० गम्भीर	जी० 23, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-16 ।
17	श्री एस० खन्ना	197, जोरबाग रोड, नई दिल्ली ।
18	श्री टी० बी० गांधी	III-एच/5, लाजपत नगर, नई दिल्ली-24 ।
मध्य प्रदेश :		
19	श्री एन० सुब्बा राव	चार्टर्ड इंजीनियर, लक्ष्मीपुरम, गुण्टूर-2 ।
पूना :		
20	श्री आर० एस० बोधानी	वास्तुक, मनु-स्मृति, एरंडवने, 33/6, प्रभात रोड, पूना-4 ।
उत्तर प्रदेश :		
21	श्री बी० एस० देसीकन	सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, नगर महापालिका वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, कानपुर-2
2. अकाउंटेंट		
पश्चिम बंगाल :		
1	श्री पी० एन० घोष	चार्टर्ड अकाउंटेंट, नानादण पहली मंजिल, कुसाव- पुर, पो० आ० आसनसोल, जिला बर्दवान, प० बंगाल ।
उत्तर प्रदेश :		
2	श्री बी० सी० लैन	चार्टर्ड अकाउंटेंट, 13/3, 14 माल, कानपुर-1 ।

1

2

3

3. कृषि और भूमि मूल्यांकन विशेषज्ञ

सम्रास :

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | श्री एम० सुब्बा नायडू | सेवानिवृत्त उप-पंजीयक, न० 8 पाण्ड्या वेल्सला स्ट्रीट, मदुरै । |
| 2 | श्री एस० बालमुहम्मद | सेवानिवृत्त जिला पंजीयक, चिदाम्बरम, दक्षिण अरकाट जिला, मद्रास । |
| 3 | श्री टी० श्रीनिवासन | अय्योव्या, 52 एल० आई० सी० कालोनी, मीनाक्षीपुरम, मदुरै -2 । |
| 4 | श्री टी० के० पांगवेन | कृषि संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्ति), 31 गंगू रेड्डी रोड, मद्रास-8 । |
| 5 | श्री के० क्लायम | सेवानिवृत्त उप-पंजीयक, अरविच फार्मोसी के सामने, मीनाक्षी पुरम, नागारनाडल, कन्याकुमारी जिला, मद्रास । |
| 6 | श्री एस० पूवावलिंगम | सेवानिवृत्ति निपटारा अधिकारी, प्लॉट नं० 184, सठमंगलम कालोनी, मदुरै-13 । |
| 7 | श्री एस० कृष्णराज | 16 पहली गली, नन्दनाम, मद्रास-35 । |
| 8 | श्री बी० डौराईराजन | सेवानिवृत्त पंजीयक, 43 कुतचेरी रोड, मादलापुर, मद्रास-4 । |
| 9 | श्री बी० जानकीराम | 18 हबीब साहिब स्ट्रीट, फोर्ट, सलेम-1, मद्रास । |

ग्राम्य प्रदेश :

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 10 | श्री एम० अनी शरीफ खां | सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, लक्ष्मीराजू स्ट्रीट, काकीनाड-1, पूर्व गोदावरी जिला, ग्रा०प्र०/ |
| 11 | श्री जी० बी० रत्नम | नियंत्रण और समन्वय अधिकारी, ग्राम्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि कालेज, बयाटला गूटूर जिला । |
| 12 | श्री बी० सूर्यनारायण | सेवानिवृत्त तहसीलदार, श्रीरामनगर, काकीनाड-3, पूर्व गोदावरी जिला । |
| 13 | श्री पी० बी० रेड्डी, नायडू | सेवानिवृत्त तहसीलदार, नरसापुर, पश्चिम गोदावरी जिला, ग्राम्य प्रदेश । |
| 14 | श्री बी० लक्ष्मी नारायण | सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, कनकाशुण्टा, गुण्टूर 4, ग्राम्य प्रदेश । |
| 15 | श्री एम० ए० हमीद खां | सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, चित्तूर, ग्राम्य प्रदेश |
| 16 | श्री जे० राजरत्नम | वि ग्राम्य शुगर मिल्स लि० तानूक्, पश्चिम गोदावरी, ग्राम्य प्रदेश । |

1	2	3
17.	श्री ए० सुब्राह्मण्यम	सेवानिवृत्त वृषि उपनिवेश, मकान नं० 28-28-58, दसारीवारी स्ट्रीट, सूर्यगढ़, विजय-वाड़ा-2, वृण्डा जिला (आन्ध्र प्रदेश) ।
18.	श्री एम० रामी रेड्डी	सेवानिवृत्त वृषि उपनिवेश, बर्ट रिक्त । पो० आ०, जिला कुण्डापाह, मं० प्र० ।
19.	श्री के० एम० प्रकाश राव	सेवानिवृत्त सहस्रीलदार, रघुदेवपुर, राजा-मुन्दरी तालुक, ईरट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
20.	श्री वी० बालन्ना	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, मकान नं० 3-4-512/9, बरकतपुरा, हैदराबाद दक्षिण, आन्ध्र प्रदेश ।
पूना :		
21.	श्री जयाजीराव बाबुराव राने	89, आशीर्वाद, श्री शिवाजी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, पूना-1 ।
22.	श्री डी० एच० जोशी	2/10, अग्रकर नगर, अलंकार थियेटर के पास पूना-1
23.	श्री वी० वी० फाटक	1591, सदाशिव पेठ, तिलक रोड, पूना-30 ।
24.	श्री आर० डी० शिंगटे	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, इन्स बी०, ताला ताला कालोनी, राजारामपुरी कोल्हापुर, एम० एस० ।
25.	श्री के० के० यादव	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, 12, वीन्स गार्डन पूना-1
26.	श्री टी० टी० मुले	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अहमदनगर, एम० एस० ।
27.	श्री आर० वी० देशपांडे	39/26, कनारे वाडी, कर्ने रोड, पूना-4 ।
28.	श्री आई० आर० बोरौले	राजस्व अधिकारी, जिला परिषद, अहमदनगर, एम० एस० ।
29.	श्री एस० डी० भागवत	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, 106, सिद्धेश्वर पेठ, शोलापुर, एम० एस० ।
30.	श्री बी० आर० मंकद	मंगलाथ रोड, जुनागढ़ ।
31.	श्री एस० वी० नायकवाडी	431, सोमवार पेठ, स्टेशन रोड, पूना-11 ।
32.	श्री टी० सी० समवंत	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, स्वामी बिल्डिंग, रेवन्यू कालोनी, सांघी, एम० एस० ।
33.	श्री जी० एस० कनेटकर	डिप्टी कलक्टर और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी सफलय प्लाट नं० 42, वृंकार कालोनी, कोल्हापुर-3, एम० एस० ।
34.	श्री पी० एम० देशपांडे	सेवानिवृत्त सहस्रीलदार, 153, नवी पेठ जैन मंदिर के पास जलगांव एम० एस० ।
35.	श्री एस० एस० मलपाठक	गिरिजा 16, अशोकनगर गणेशविंद पूना-7 ।

1

2

3

मंसूर : *

36. श्री एम० बट्टया सेवानिवृत्त जिला पंजीयक के मुख्यालय सहायक,
न० 826, ब्लाक 3, राजाजी नगर, बंगलौर—
10।
37. श्री पी० एम० बेट्टया 917, ब्लाक 5, राजाजी नगर, बंगलौर 10।
38. श्री डी०वी० हीरेमठ वीरश्री, अदाश, नगर, हुबली—22, मंसूर।
39. श्री एस० ननजुण्डा, रेड्डी नं० 187, 38वां क्रास, ब्लाक 5, जयनगर,
बंगलौर—41
40. श्री अजीज मोहिदीन पीरन सेवानिवृत्त तहसीलदार द्वारा श्री गुलाम अहमद,
कार्यकारी इंजीनियरी, नं० 3, ब्लाक 3,
वाटर सप्लाई क्वार्टर्स, जयमहल, एक्सटेंशन.
बंगलौर—6।
41. श्री डी०वी० कुलकर्णी सहायक आयुक्त (सेव निवृत्त), 23 पश्चिम
अंज नेया मन्दिर रोड, बसावन गल्ली, बंगलौर—
4।
42. श्री मोहम्मद आबिद हुसैन सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त मारुफ मंजिल,
बहरामपुर, गुलबर्गा, मंसूर।

गुजरात :

43. श्री एल० आर० डटवानी सिधु भवन, प्राणकुंज सोसायटी, कंकारिया,
अहमदाबाद—22।
44. श्री जी०एम० चदासमा 'शिवम्' बंगला, आदर्श सोसायटी, रिस फोर्स
राजकोट।
45. श्री आर०एम० शेट सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, 3-वीं, सूर्योदय
कालोनी, सरदार पटेल कालोनी के पास,
अहमदाबाद—13।
46. श्री एम०के० शाह 1, जंकशन प्लॉट राजकोट।
47. श्री के०एन० गोहिल सेवानिवृत्त उप-पंजीयक, द्वारा, 985 कृष्णनगर,
बल्लूरवा स्ट्रीट, केशोड, जूनागढ़ जिला, गुजरात
48. श्री मोहनलाल ऊधवजी पण्डा भागनगर, सौराष्ट्र।
49. श्री वस्मनभाइ चतुरभाइ पटेल सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, काकरबाड़, सुतारिया
पोल, नादियाद, जिला कंरा, गुजरात।
50. श्री प्रोफ़ेसर ज्ञानी सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, अशोक सदन, श्विन
सकिल, जामनगर, गुजरात।
51. श्री एक० एन० डोलकिस्से सेवानिवृत्त सिविल जज, लीना, पंजाब नेशनल
बैंक के सामने, फालेबाग, बड़ौदा—2।
52. श्री शंकर लाल श्री. प्रियदर्शी सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर 6, मेघदन सोसायटी,
बड़ौदा।
53. श्री कुमारीम आसानी मल्ल सेवानिवृत्त पंजीकरण निरीक्षक, ग्रामी, एल०
मानिकलाल कालोनी, करेली बाग, बड़ौदा।

1	2	3
54	श्री गोवर्धनभाई छोटाभाई अमीन	14, सरकारी कर्मचारी सोसायटी, त्रवारगपुरा, अहमदाबाद-9।
55	श्री नरेंद्रकुमार एम० जोशी	गंगाधर कृपा भवन, भक्ती नगर सोसायटी, राजकोट-2।
56	श्री लालभाई डाह्याभाई पटेल	प्रेमजी बाड़ी, स्टेशन रोड, नवसारी, जिला बलसर, गुजरात।
57	श्री सी०सी० मांधी	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, संस्कृत पाठशाला के सामने मरदाबावी, नादियाद, जिला कैरा।
58	श्री मास्केरी सी० हाथी	बैजनाथ मंदिर के सामने, जयनगर।
59	श्री सुन० राघ० खिचडी	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, ननपुरा खरदीशेरी छोडालाल भवन सूरत नं० 1 सूरत।
60	श्री प्रमानन्द बागजी भाई अमीन	राजमहल रोड, कीर्ति स्तम्भ के पास, बडौदा-1
61	श्री जी० बी० ताडक	वेसाई फालिया, नव डहरा, बडौक, गुजरात।
62	श्री स० डी० वेसाई	5/19, शंकर निवास, जनाबन्दरी मोहल्ला, नवसारी पश्चिम रेलव, जिला बलसर।
63	श्री क० सा० पटेल	डिप्टी कलक्टर (सेवानिवृत्त) 38, प्रताप गंज बडौदा-2, गुजरात।
64	श्री जी० बी० भट्ट	द्वारा वीरचन्द गोविन्दगी शाह, मालीवाडा रोड, जूनागढ़, गुजरात।
65	श्री आई० एम० पटेल	सियामवाल, बिल्डिंग, सुलेमानी पोल, भुगलवाडा, बडौदा -1।
66	श्री डी० क० मास्टर	सुभाष पार्क सोसायटी, ब्लॉक नं० 23 हस्नी रोड, बडौदा -6।
मध्य प्रदेश :		
67	श्री एस० डी० काले	सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, 60, प्रभा निवास, पो० आ० राजेन्द्रनगर तहसील और जिला-हंदौर।
68	श्री आर० सी० व्यास	डिप्टी कलक्टर (सेवानिवृत्त) 29, बराडी, कालोनी नं० 1 हंदौर-2 (मध्य प्रदेश)
69	श्री रामशंकर चतुर्वेदी	सेवानिवृत्त तहसीलदार, 277, एम० जी० रोड, हंदौर-2 (मध्य प्रदेश)।
70	श्री आर० बी० एल० गुमास्ता	सेवानिवृत्त अवर सचिव, 1128, नेपियर टाउन, जबलपुर (मध्य प्रदेश), 19 पंचशील नगर, रायपुर (मध्य प्रदेश), 1।
71	श्री एन० पी० कौनहेर	
केरल :		
72	श्री एन० वेंकटेश्वर अय्यर	सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, पुडिया मातम, मोन-कोम्पु, अलेप्पी होते हुए, केरल।
73	श्री सी० शिवदासन नायर	पंजीकरण निरीक्षक (सेवानिवृत्त), 9/217 कालेज रोड, पालघाट-1, केरल।

1	2	3
74 श्री पी० टी० जार्ज	सेवानिवृत्त उप-पंजीयक, पादवपुराकल हाउस, एदाथुआ पो० ग्र०, अलेप्पी जिला, केरल ।	
75 श्री एम० के० रामकृष्ण नायर	सेवानिवृत्त सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख सहायक निदेशक, मथिलकोडीकल हाउस, अजियाथाथु चीरा पो० ग्र०, तिरुवेल्ला, अलेप्पी जिला ।	
76 श्री टी० एस० रामकृष्ण अय्यर	सेवानिवृत्त तहसीलदार, 4/783 बेंकटेशपुरम्, पुथूर पालघाट, केरल ।	
77 श्री पी० ए० सुब्रह्मण्य अय्यर	सेवानिवृत्त तहसीलदार, मन्नाथु पराकल्म, पाननगट्टरी पो० ग्र० पालघाट ।	
78 श्री के० आर वारियर	कलाविहार, कौडियार, तिरुअनन्तपुरम्-3 ।	
79 श्री टी० एम० ब्रह्मदुल्ला	सेवानिवृत्त सब जज, राहमठ बागकन्नूर-8, केरल ।	
80 श्री सी० के० बालकृष्णन नायर]	सेवानिवृत्त जिला राजस्व अधिकारी, 103 कृष्णा, चन्द्रनगर, पालघाट-7, केरल ।	
81 श्री ए० अच्युतन नायर	सेवानिवृत्त तहसीलदार, कोदवकट हाउस, पी०ग्र० पेरिनथलमन्नमाल पुरम जिला, केरल	
पश्चिमी बंगाल:		
82 श्री लोकेश गांगुली	91 मनीरामपुर कालोनी, पो० ग्र० बैरकपुर, 24-परगना, पश्चिम बंगाल ।	
83 श्री उपेन्द्र कुमार चक्रवर्ती	क्वार्टर न० ई० 3/2 कोकशोरन कालोनी, पो० ग्र० दुर्गापुर-2, जिला बर्बवान ।	
84 श्री मनिन्द्र नाथ नाग	एडवोकेट ऋषि बंकिम चटर्जी रोड, पो० ग्र० बारासात, जिला -24-परगना ।	
85 श्री श्यामपाव सेन	116 बी० वी० चटर्जी रोड, कस्बा, कलकत्ता-42 ।	
86 श्री प्रकाश चन्द्र बनर्जी	ग्राम-चाकसाजपुर, पो० ग्र० ईलाहीपुर, जिला हुगली, प० बंगाल ।	
87 श्री बाबासोष पाल	एडवोकेट, 44 कस्सा रोड, पूर्वी पहली गली, कलकत्ता-13 ।	
88 श्री संतोष कुमार बसु	सेवानिवृत्त उप-पंजीयक 98/डी वनर्जी पाडा रोड, चारीचारापाडा, पो० ग्र० नवद्वीप, जिला नाडिया, प० बंगाल ।	
89 श्री जे० सी० दास गुप्त	सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी, द्वारा कुमारी कमल सेन गुप्ता, सी० आई० टी० बिल्डिंग, लाक ए, कमरा नं० 6, पो० ग्र० सोदेपुर, जिला-24-परगना प० बंगाल ।	
90 श्री जोगेन्द्र नाथ दत्ता	19, ठाकुर गली, पो० ग्र० चिनसुरा, जिला हुगली, प० बंगाल ।	

1

2

3

उड़ीसा :

- 91 श्री बनमाली दास सेवानिवृत्त तहसीलदार, पो० आ० कुल्लाडा, भंजनगर होते हुए, जिला गंजम, उड़ीसा ।
- 92 श्री एन० चन्द्रभान पटनायक ताडेपल्लीवाड़ी स्ट्रीट, चन्नपुर, जिला गंजम उड़ीसा ।
- 93 श्री ए० के० बोवाल सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, बालमाडा निवास, माणिककाडा लेम, पो० आ० पुरी ।
- 94 श्री आर० सी० कृकार सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज, एस० ओ० क्वार्टर्स नं० 4, किल्ला फोर्ट, कटक-1 ।
- 95 श्री एस० एम० मिश्र डी-6, कल्पना कालोनी, भुवनेश्वर ।
- 96 श्री एम० बी० जी० शास्त्री सेवानिवृत्त मुआजा अधिकारी, हवा मैदान, पो० आ० व जिला सम्बलपुर, उड़ीसा ।
- 97 श्री नरसिंह चरण बिद्योडी ग्राम-उखाडी, पो० आ० रामेश्वर, जिला कटक, उड़ीसा ।
- 98 श्री डा० ए० आर० पाण्डा प्लॉट नं० 11, सत्यनगर, भुवनेश्वर-7 ।
- 99 श्री ले० पी० सी० पटनायक क्वार्टर नं० 3/2, टाइप-बीआर, यूनिट 2, पो० आ० भुवनेश्वर, जिला पुरी, उड़ीसा ।
- 100 श्री एन० एम० दास सेवानिवृत्त ओ० ए० एस०, नई कालोनी, राहुस-पतना, कटक-1, उड़ीसा ।

दिल्ली :

- 101 श्री राम नारायण सिंह सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर, आर/ओ 41, बंगला रोड, कमला नगर, दिल्ली-7 ।
- 102 श्री लक्ष्मी नारायण रायजादा आर/ओ वी० पबाना हसनपुर, पो० आ० बाल रंगरतन तहसील, जिला करनाल ।
- 103 श्री गुलाल चन्द जैन सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज, सत्यमकेतन नाहन, हिमाचल प्रदेश ।
- 104 श्री सुरेन्द्र नाथ धनिदस (सेवानिवृत्त), 48, मीना एक्सी शिमला-1 (हिमाचल प्रदेश)

पंजाब :

- 105 श्रीवतन सिंह डिप्टी कलक्टर (सेवानिवृत्त), 48-आर०, माडल टाउन, लुधियाना ।
- 106 श्री हीरा सिंह सुपुत्र भगत सिंह, ग्राम व पो० आ० बोइन पोइन, तहसील तरन तारन, जिला अमृतसर ।
- 107 श्री संतराम गर्ग सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज, एडवोकेट, भटिण्डा ।
- 108 श्री उजागर सिंह बाजवा सेवानिवृत्त पी० ए० एस०, ग्राम व पो० आ० कोट संतोख राय, धारीवाल के पास, जिला मुरदासपुर ।

1	2	3
उत्तर प्रदेश :		
109 श्री एस० सी० अग्निहोत्री	सेवानिवृत्त तहसीलदार, 906/14 सेवा राम तन	
	मिल, सिविल, लाइन्स, झांसी (उ०प्र०)	
110 श्री जेस दत्त अग्रवाल	राजा दरवाजा हाउस, राजा दरवाजा, वाराणसी-1	
	(उ० प्र०)	
बिहार :		
111 श्री एम० सिद्ध	106 पाटलीपुत्र कालोनी, पटना-13 (बिहार)।	
	मौज बागम विशेषक	
मसूर :-		
111 श्री एस० ए० सत्यभामा	कुली-अनेगुडी स्टेट आऊली-डाक तार विभाग,	
	चिड, मंगल्यी ।	
मद्रास :-		
112 श्री एस० थंगावैलू	हवूकल एस्टेट क० कोटागिरि पो० आ०, नीलगिरि,	
	मद्रास ।	
5. आर्य समाज विशेषक		
मद्रास :-		
श्री एम० थंगावैलू	हवूकल एस्टेट क०, कोटागिरि पो० आ०, नीलगिरि	
	मद्रास ।	
6. अक शास्त्री		
पश्चिम बंगाल :		
श्री एस० के० सेन	एकचुभरी, ब्लाक जे, प्लाट 374, न्यू मलीपुर,	
	कलकत्ता -53 ।	
7. स्थायी जमीन के मूल्यांकन		
मसूर :		
1 श्री एम० एम० श्रीनिवासन	कल्पतरु, 9वीं क्रॉस रोड, मल्लेश्वरम् बंकलौर-8 ।	
8. इलायची बागवानी		
दिल्ली :		
1 श्री एस० अजमल खां, संसद सदस्य	6 मीना बाग, नई दिल्ली ।	
मद्रास :		
2 श्री डब्ल्यू पी० ए० आर० नारायणन	कृषक पट्टीवीरांपट्टी, मयूर जिला, मद्रास राज्य ।	
केरल :		
3 श्री पी० के० मली	कृषक, रेड क्रॉस रोड, कालीकट-1, केरल ।	

[सं० 300/2862/70-ई० डी०]

बसन्तीर सिंह,

उप सचिव ।